

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(AMiniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/294

दिनांक - 22/09/2017

प्रेस विज्ञप्ति

संगिनी महिला समिति की शासकीय प्राथमिक शाला, बैगाबस्ती को अभिनव सौगात

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) का महिला मंडल एनसीएल कार्यक्षेत्र के आस-आस-पास की महिलाओं एवं बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। इन प्रयासों के क्रम में कंपनी के दुधीचुआ क्षेत्र की संगिनी महिला समिति ने बुधवार को शासकीय प्राथमिक शाला, बैगाबस्ती, सैक्टर-ए में प्योरइट कंपनी का आरओ दिया। संगिनी महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती पंकी प्रसाद की अध्यक्षता में यह कार्य किया गया।

विद्यालय परिसर में ही स्कूली बच्चों को पीने का साफ पानी उपलब्ध करने के उद्देश्य से यह आरओ दिया गया। संगिनी महिला समिति की सदस्याओं ने विद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों से आरओ की समुचित देखभाल करने का अनुरोध किया, ताकि बच्चे लंबे समय तक आरओ का उपयोग कर साफ पानी पी सकें।

महिला समिति की सदस्याओं ने बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाया और उनसे विद्यालय परिसर की नियमित सफाई कर उसे साफ बनाए रखने की भी अपील की। साथ ही, उन्होंने विद्यालय प्रशासन एवं विद्यार्थियों को भविष्य में भी स्कूल के विकास हेतु संगिनी महिला समिति की ओर से योगदान देते रहने का आश्वासन दिया।

आरओ पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। विद्यालय के शिक्षक मंडल ने उनके स्कूल में आरओ लगाने के लिए संगिनी महिला समिति की सदस्याओं का आभार जताया।

कार्यक्रम के आयोजन में संगिनी महिला समिति की श्रीमती कान्ता जानानी, श्रीमती माला सिन्हा, श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, श्रीमती सविता अग्रवाल और श्रीमती तरन्नुम खान सहित अन्य सदस्याओं ने योगदान दिया।

जनसंपर्क अधिकारी